



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1940 (श10)
(सं० पटना 1009) पटना, बृहस्पतिवार, 29 नवम्बर 2018

सं० 16/यू.1-12/2018-1505(आ०चि०)
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

27 नवम्बर 2018

विषय:— राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में गृह चिकित्सक की दो वर्षों की कालावधि के लिए नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन एवं मापदंड का निर्धारण।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड के अनुसार विभागीय राज्यादेश संख्या 826 (दे०चि०), दिनांक 20.08.2015 द्वारा राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में गृह चिकित्सक (House Physician) कुल 5 (पाँच) पद पे बैंड 9300-34800/- ग्रेड पे 5400/- में स्वीकृत है।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन एवं मापदंड के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। राज्य सरकार द्वारा निर्णयोपरान्त निम्नांकित रूप से समिति का गठन एवं मापदंड का निर्धारण किया जाता है। साथ ही गृह चिकित्सक के पद की कालावधि 2 वर्ष (टेनियोर) निर्धारित किया जाता है।

(क) समिति का गठन :-

1	निदेशक (यूनानी) —	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना—	सदस्य सचिव
3	महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक —	सदस्य
4	सम्बंधित जिला के अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के पदाधिकारी या आयुष निदेशालय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के चिकित्सा पदाधिकारी —	सदस्य

(ख) प्राचार्य द्वारा प्रत्येक दो वर्षों पर आरक्षण रोल्टर के अनुसार गृह चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया जायेगा। समिति द्वारा निम्नांकित योग्यता/ अर्हता के अनुसार अंक निर्धारित कर कुल अधिक अंक वाले की नियुक्ति हेतु अनुशंसा आरक्षण कोटि के अनुसार की जायेगी।

(ग) मापदंड का निर्धारण :-

अर्हता/योग्यता	अंक की गणना
1. बी०यू०एम०एस० या समकक्ष (बी०यू०एम०एस० के लिए यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट, मेरिट क्रमांक 1 से 10 तक)	50 अंक
2. बी०सी०ई०सी०ई० बोर्ड, पटना द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक 40% या अधिक	25 अंक
3. एम०डी० (यूनानी)	25 अंक
कुल	100 अंक

(घ) नियुक्ति प्राधिकार — प्राचार्य द्वारा गृह चिकित्सक की नियुक्ति स्वीकृति वेतनमान का प्रक्रम वेतन पर अन्य अनुमान्य भत्ते सहित 2 वर्षों के लिए की जाएगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा-16) को भी उपलब्ध करायी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
नागेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1009-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>